



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 1978/भाद्र 1, 1900  
No. 248] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 1978/BHADRA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय  
(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1978

सा०का०नि० 426 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात्:—

- (1) इन आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह भी कि इस उपखण्ड की कोई भी बात, खाद्य निबन्ध अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम की लागू नहीं होगी।”

[सं० 10-6/78-एस०टी०यू०]

ए०जे०एस० सोदी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION**

**(Department of Agriculture)**

**ORDER**

New Delhi, the 23rd August, 1978

**G.S.R. 426(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely :—

(1) This order may be called the Fertiliser (Control) Amendment Order, 1978.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Control) Order, 1957, after the proviso, to sub-clause (1) of clause 5, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that nothing contained in this sub-clause shall apply to the Food Corporation of India established under Section 3 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964).”

[No. 10-6/78-S.T.U.]

A. J. S. SODHI, Joint Secy.